



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 54]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2001/माघ 9, 1922

No. 54]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2001/MAGHA 9, 1922

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

दूरदर्शन महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2001

का.आ. 82(अ).— प्रसार भारती § भारतीय प्रसारण निगम§, केबल टेलीविजन नेटवर्क § विनियमन§ अधिनियम, 1995 § 1995 का 7§ की धारा 8 की उपधारा § 1§ के साथ पठित उप धारा § 3§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तद्वारा भारत के राजपत्र-असाधारण-के भाग II खंड 3-उपखंड § 11§ दिनांक 13 सितंबर, 2000 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० का. आ. 823 §अ§ दिनांक 13 सितंबर, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के उपपैरा के खंड §ग§ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,
"§ग§ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें केबल आपरेटर अवस्थित है, का क्षेत्रीय सेवा चैनल या दूरदर्शन §समाचार एवं सामयिकी§ चैनल जैसा अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है" ।
2. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रविष्टि सं० 22 के बाद

निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:-

- | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|
| 23. | अडेमान और निकोबार | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 24. | बिहार | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 25. | छत्तीसगढ़ | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 26. | दिल्ली | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 27. | गोवा | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 28. | हरियाणा | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 29. | हिमाचल प्रदेश | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 30. | झारखंड | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 31. | मध्य प्रदेश | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 32. | राजस्थान | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 33. | सिक्किम | - डीडी-उत्तर-पूर्व चैनल |
| 34. | उत्तर प्रदेश | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |
| 35. | उत्तरांचल | - डीडी §समाचार एवं सामयिकी§
चैनल |

[सं. 16(1)/केबल/2000-ई. III]

आर.सी. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (नीति योजना)

PRASAR BHARATI
(Broadcasting Corporation of India)
DIRECTORATE GENERAL DOORDARSHAN
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2001

S.O. 82(E).—in exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulations) Act, 1995 (7 of 1995), the PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA) hereby makes the following amendments in its Notification No. S.O. 823 (E) dated 13th September 2000 published in the Gazette of India – EXTRAORDINARY – PART II – Section 3 – Sub-section (ii) dated the 13th September, 2000:-

1. Clause (c) of sub-para of para 1 of the above said Notification shall be substituted by the following, namely :-

“(c) regional language channel of the State/Union territory in which the cable operator is located or the DD (News & Current Affairs) Channel, as specified in the Schedule;”

2. In the Schedule attached to the above said Notification, the following shall be added after entry 22:-

23.	Andaman & Nicobar Island	- DD (News & Current Affairs) Channel.
24.	Bihar	- DD (News & Current Affairs) Channel.
25.	Chattisgarh	- DD (News & Current Affairs) Channel.
26.	Delhi	- DD (News & Current Affairs) Channel.
27.	Goa	- DD (News & Current Affairs) Channel.
28.	Haryana	- DD (News & Current Affairs) Channel.
29.	Himachal Pradesh	- DD (News & Current Affairs) Channel.
30.	Jharkhand	- DD (News & Current Affairs) Channel.
34.	Uttar Pradesh	- DD (News & Current Affairs) Channel.
35.	Uttaranchal	- DD (News & Current Affairs) Channel.”

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 31 | Madhya Pradesh | - DD (News & Current Affairs) Channel. |
| 32. | Rajasthan | - DD (News & Current Affairs) Channel. |
| 33. | Sikkim | - DD – North – East Channel. |

[No. 16(1)/Cable/2000-E. III]

R.C. MISHRA, Executive Director (SP)